



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited  
 विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant  
 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र Technical Training Institute  
 विशाखपट्टणम Visakhapatnam-530031  
**प्रमाण पत्र CERTIFICATE**

No 08727

प्रामाणित किया जाता है कि श्री/This is to certify that  
 Mr./Ms. \_\_\_\_\_ a student of

(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा Year/Course/Branch)

विद्यार्थी ने from

has undergone

के at Visakhapatnam Steel Plant in

विभागों में depts. from दि

परियोजना शीर्षक The project title is

प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training is  
 है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि/Date

प्रशिक्षण समन्वयक के हस्ताक्षर मोहर के साथ  
 Signature of Training Co-Ordinator with Seal

ज. प्रभाकर राव J. PRABHAKARA RAO

प्रमुख (प्रशिक्षण) अधिकारी (मुख्य)

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

विशाल इस्पात निगम लिमिटेड

PRINCIPAL  
 Aditya College of  
 Engineering & Technology  
 SURAMPalem- 533 437





THE HONORABLE CHIEF SECRETARY  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENSE  
NEW DELHI

Reference is made to the letter from the Ministry of Defense dated 15.12.1954 regarding the proposed project for the construction of a new plant for the production of explosives.

The project is being considered for approval by the Ministry of Defense. The project is being considered for approval by the Ministry of Defense. The project is being considered for approval by the Ministry of Defense.

The project is being considered for approval by the Ministry of Defense. The project is being considered for approval by the Ministry of Defense. The project is being considered for approval by the Ministry of Defense.

प्रतिमान के अनुसार मैं उनका आचरण His/Her conduct during the period of planning

अनुमति/निराकरण के लिए प्रस्तावित है।  
दिनांक: 15/12/54

प्रमाण के लिए प्रमाणित है।  
प्रमाणित करने वाले का नाम: [Signature]  
पद: [Title]



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड Rashtriya Ispat Nigam Limited

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र Visakhapatnam Steel Plant

तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र Technical Training Institute

विशाखपट्टणम Visakhapatnam-530031

No. 08754

0008754

प्रमाण पत्र CERTIFICATE

WI703TH02647-00088

प्रामाणित किया जाता है कि श्री/This is to certify that

Mr./Ms. A H V A CHIRANTHEVA SANDEEP a student of

(वर्ष/पाठ्यक्रम/शाखा Year/Course/Branch/ III/B TECH/MECHANICAL

विद्यार्थी ने from ADITYA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, SURAMPalem से

has undergone INTERNSHIP प्रशिक्षण training विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र

के at Visakhapatnam Steel Plant in WIRE ROD MILL

विभागों में depts. from दि 18/11/2019 से to 30/11/2019 तक प्राप्त किया।

परियोजना शीर्षक The project title is

है।

प्रशिक्षण अवधि में उनका आचरण His/Her conduct during the period of training is

GOOD है।

स्थल/Place : Visakhapatnam

दि/Date 30/11/2019

प्रशिक्षण समन्वयक के हस्ताक्षर मोहर के साथ।  
Signature of Training Co-Ordinator with Seal

जी. प्रभाकर राव-J. PRABHAKARA RAO  
प्रबंधक (प्रशिक्षण)-Manager (Trg.)  
तकनीकी प्रशिक्षण संयंत्र  
Technical Training Institute  
एच आर एन एल, विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र  
RINL, Visakhapatnam Steel Plant  
वि (तकनीकी)-Visakhapatnam-530031

PRINCIPAL  
Aditya College of  
Engineering & Techno.  
SURAMPalem-53004



# ADITYA

## COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, New Delhi & Affiliated to JNTUK, Kakinada, Accredited by NAAC

Ph: (+91884) 2326221, (+91) 99591 76665, Email: office@acet.ac.in, Website: www.acet.ac.in

Surampalem,  
Date: 01-07-2019.

To  
The Factory Manager,  
Sarvaraya Sugars Pvt Ltd,  
Kesavaram.

Sir,

**Sub: Request for Industrial Visit - Permission -Reg.**

Aditya College of Engineering & Technology is one of the reputed engineering colleges in Andhra Pradesh. The college has been established in the academic year 2004-05 and is maintaining a commendable record of student's performance in terms of academics and placements since its inception.

Our III Year B.Tech I semester Mechanical Engineering students are intending to visit your sugar Industries, as a part of industrial tour.


This is an effort to expose the students to new methodologies & new technologies that exist in the industry. 60 students want to visit your Industries along with faculty members. It would be of immense pleasure for us, if our students are permitted for industrial visit in between 03<sup>rd</sup> July 2019.


We request you to kindly accord permission to visit your esteemed organization, your positive social response in this regard will be highly solicited. Please acknowledge your confirmation to the Head of the Department with a permission letter or to

Email Id: mech\_hod @acet.ac.in, as your mode of choice

Thanking you,

  
HOD MECH

  
Sri Sarvaraya Sugars Ltd.,  
Bottling Unit  
KESAVARAM-535 361  
Mandapeta Mandal, E.G. Dist. A.P.

  
PRINCIPAL  
Aditya College of  
Engineering & Technology  
SURAMPALAM- 533 43

# ADITYA

## COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, New Delhi & Affiliated to JNTUK, Kakinada, Accredited by NAAC

Ph: (+91884) 2326221, (+91) 99591 76665, Email: office@acet.ac.in, Website: www.acet.ac.in

Surampalem,  
Date: 12-07-2019.

To  
The Plant Manager,  
Srinivasa Polymers Ltd,  
Samalkot.

Sir,

**Sub: Request for Industrial Visit - Permission -Reg.**

Aditya College of Engineering & Technology is one of the reputed engineering colleges in Andhra Pradesh. The college has been established in the academic year 2004-05 and is maintaining a commendable record of student's performance in terms of academics and placements since its inception.

Our IV Year B.Tech I semester Mechanical Engineering students are intending to visit your sugar Industries, as a part of industrial tour.

This is an effort to expose the students to new methodologies & new technologies that exist in the industry. 120 students want to visit your Industries along with faculty members. It would be of immense pleasure for us, if our students are permitted for industrial visit in between 17<sup>th</sup> July 2019.

We request you to kindly accord permission to visit your esteemed organization, your positive social response in this regard will be highly solicited. Please acknowledge your confirmation to the Head of the Department with a permission letter or to

Email Id: mech\_hod @acet.ac.in, as your mode of choice

Thanking you,

  
HOD MECH



  
PRINCIPAL

  
PRINCIPAL  
Aditya College of

ADITYA NAGAR, ADB ROAD, SURAMPALAM - 533 437, NEAR KAKINADA, E.G.DIST., A.P., INDIA



# ADITYA

## COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Approved by AICTE, New Delhi & Affiliated to JNTUK, Kakinada, Accredited by NAAC

Ph: (+91884) 2326221, (+91) 99591 76665, Email: office@acet.ac.in, Website: www.acet.ac.in

Surampalem,  
Date: 18-07-2019.

To  
The Vice president,  
Sarvaraya Sugars,  
Vemagiri.

Sir,

**Sub: Request for Industrial Visit - Permission -Reg.**

Aditya College of Engineering & Technology is one of the reputed engineering colleges in Andhra Pradesh. The college has been established in the academic year 2004-05 and is maintaining a commendable record of student's performance in terms of academics and placements since its inception.

Our III Year B.Tech I semester Mechanical Engineering students are intending to visit your Sarvaraya Sugars, as a part of industrial tour.

This is an effort to expose the students to new methodologies & new technologies that exist in the industry. 120 students want to visit your Industries along with faculty members. It would be of immense pleasure for us, if our students are permitted for industrial visit in between 19<sup>th</sup> July or 20<sup>th</sup> July 2019.

We request you to kindly accord permission to visit your esteemed organization, your positive social response in this regard will be highly solicited. Please acknowledge your confirmation to the Head of the Department with a permission letter or to

Email Id: mech\_hod @acet.ac.in, as your mode of choice

Thanking you,

  
HOD MECH

*Visited  
18.7.19*

  
PRINCIPAL  
Aditya College of  
Engineering & Technology  
SURAMPALAM- 533 437